



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 677 राँची, बुधवार,

21 अगस्त, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

19 अगस्त, 2019

संख्या- 01/माडा-22/2018 न०वि०आ०-3487-- झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद के कर्मियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा शहरी स्थानीय निकायों में समायोजन/स्थानान्तरण तथा झमाडा की भूमि नगर निगम को हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है :-

i.	उपायुक्त, धनबाद	-	अध्यक्ष
ii.	झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद के प्रतिनिधि	-	सदस्य
iii.	धनबाद नगर निगम के प्रतिनिधि	-	सदस्य
iv.	चास नगर निगम के प्रतिनिधि	-	सदस्य
v.	गिरिडीह नगर निगम के प्रतिनिधि	-	सदस्य
vi.	चिरकुण्डा नगर परिषद के प्रतिनिधि	-	सदस्य

2. उपर्युक्त गठित समिति झमाडा, धनबाद की भूमि को पी०पी०पी० मोड पर विकसित करने तथा शहरों के अंदर की भूमि आवश्यकतानुसार नगर निकायों को हस्तांतरित करने के संबंध में विभाग को अनुशंसा समर्पित करेगी।
3. उपर्युक्त समिति झमाडा कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने अथवा उन्हें शहरी स्थानीय निकायों में स्थानान्तरण/समायोजन किये जाने पर अपनी अनुशंसा विभाग को समर्पित करेगी।
4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्दन कुमार,
सरकार के अवर सचिव।
